

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मार्च 2014—चैत्र 10, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मार्च 2014 (चैत्र 10, 1936)

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

क्र. 5316-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 92, विजयराघवगढ़ से निर्वाचित सदस्य, श्री संजय पाठक ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2014 से स्वीकृत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

भगवानदेव इसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.